



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 553 राँची, मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 (ई०)

---

#### जल संसाधन विभाग

-----

अधिसूचना

9 जुलाई, 2019

**संख्या:-6/ज.स.वि.-105-विविध-17/2012- 3588--** पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4590, दिनांक 29.10.2018 के क्रम में झारखण्ड राज्यपाल सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 जो इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा जाएगा, में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

- 1(1) यह नियमावली झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।
- (2) यह राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. मूल नियमावली के नियम 8.1 के पश्चात् उप नियम 8.1.1 के रूप में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाता है:-

Jharkhand Enlistment of Contractors Rule, 2001 के तहत जल संसाधन विभाग झारखण्ड में श्रेणी 1 एस में निबंधित संवेदक वर्तमान झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 के तहत श्रेणी-1 में, श्रेणी 1ए में निबंधित संवेदक श्रेणी-2 में, श्रेणी-1बी एवं श्रेणी-II में निबंधित संवेदक श्रेणी-3 में तथा श्रेणी-III, श्रेणी-IV एवं श्रेणी-V में निबंधित संवेदक नयी नियमावली के तहत श्रेणी-4 के समकक्ष निबंधित माने जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

सरकार के अपर मुख्य सचिव,  
जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची।

-----